

कक्षा - पाँचवीं

विषय-हिंदी (अधिन्यास- 4, दो पहलवान)

नाम _____ विभाग _____ अनुक्रमांक _____ दिनांक _____



नीता किताब पढ़ रही है ।

चारु ने किताब पढ़ ली ।

स्नेहा किताब पढ़ेगी ।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के करने का समय प्रकट हुआ है । पहले वाक्य में पढ़ने का काम हो रहा है । दूसरे में बीते समय का तथा तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है ।

क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं ।

काल के तीन भेद होते हैं -

- 1) वर्तमान काल
- 2) भूतकाल
- 3) भविष्यत काल

प्रश्न 1) निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए ।

- 1) पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं । _____

2) सीमा ने खाना खा लिया । _____

3) कल हम घूमने जाएँगे । _____

4) मेरी नानी ने मुझे कहानी सुनाई । _____

5) आज बारिश हो रही है । _____

प्रश्न 2) निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए ।

1) माँ ने खाना बना लिया । (भविष्यत काल) _____

2) बच्चे मिठाई खाएँगे । (वर्तमान काल) _____

3) दुकानदार खिलौने बेच रहा है । (भूतकाल) _____

4) बंदर पेड़ पर चढ़ गया । (भविष्यत काल) _____

5) लड़कियाँ विद्यालय जा रही हैं । (भूतकाल) _____

प्रश्न 3) निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए ।

1) सिंह 2) आखे 3) दगलो 4) पहुचकर 5) नियत्रण 6) ऊचे 7) आएगे

प्रश्न 4) निम्नलिखित अर्थ के सामने उपयुक्त मुहावरे लिखिए ।

1) बुरी तरह हराना _____

2) डरकर भाग जाना _____

3) बहुत क्रोधित होना _____

4) हैरान रह जाना _____

5) बढ़ा - चढ़ाकर बोलना _____

प्रश्न 5) 'जीवन में भयभीत होना उचित नहीं है ।' आप अपने भय पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या करते हो ? (4 से 5 पंक्तियाँ)
